



## बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017-2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



### कुलपति महोदय का संदेश

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सत्र 2017-2019 की राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. 2017 आयोजित करने का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। आदि गंगा-गोमती के पावन तट पर स्थित भगवान श्री राम के अनुज, वीरवर लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखनऊ अपनी गंगा-जमुनी तहजीब के लिए विश्व-विख्यात है। यहाँ के नवाबों की शान-मुगलकालीन ऐतिहासिक इमारतों और बाग (भूल-भुलैया, इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, मकबरे, बारादरी इत्यादि) लखनऊ की पहचान बढ़ाते हैं। अम्बेडकर, लोहिया एवं जनेश्वर मिश्र पार्क आज पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र हैं। काकोरी, दिलकुशा, रेजीडेन्सी आदि स्थल 1857 की क्रांति के साक्षी हैं। मलिहाबादी आम, सफेदा एवं खरबूजे के साथ-साथ सामिष एवं निरामिष भोजन के लिए लखनऊ विख्यात है। सूरदास लखनवी से लेकर उपन्यासत्रयी - भगवती चरण वर्मा, यशपाल एवं श्री लाल शुक्ल तक की साहित्य परम्परा विद्यमान है। महाकवि निराला, अमृत लाल नागर, शिवानी, रमई काका, मजाज़ आदि कवियों ने अपनी कविताओं से यहाँ के साहित्यिक परिवेश को निखारा है। विख्यात मुद्रक गंगा पुस्तक माला, मुंशी नवल किशोर प्रेस ने आजादी से पूर्व के साहित्य को विश्व में उकेरा है।

ऐसी पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक नगरी में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 25 नवम्बर 1920 को हुई। विश्वविद्यालय को उसकी अकादमिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शैक्षिक जगत में विशेष स्थान प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. बीरबल साहनी, प्रसिद्ध समाजशास्त्री आचार्य नरेन्द्रदेव, धुर्जटा प्रसाद मुखर्जी आदि ने यहाँ के शैक्षिक स्वरूप को गरिमा प्रदान की है। विख्यात हॉकी खिलाड़ी के.डी. सिंह 'बाबू', क्रिकेटर-सुरेश रैना, आर. पी. सिंह, विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। वर्तमान में लखनऊ नगर में मेट्रो रेल का परिचालन शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है। गोमती रिवरफ्रन्ट विकास परियोजना, मा. उच्च न्यायालय का नवीन भवन एवं आगरा एक्सप्रेस-वे आदि आधुनिकता के सशक्त प्रतीक हैं।

बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017 को शुचितापूर्ण सम्पन्न कराने के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय दृढ़ संकल्प है। अभ्यर्थियों की सुविधा एवं परीक्षा की पारदर्शिता हेतु बी.एड. प्रवेश सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की गई है। बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य हेतु हमारी शुभकामनाएँ एवं मंगलकामनाएँ। साथ ही इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु कटिबद्ध, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं टीम को मेरी अनन्त शुभेच्छा,

सुरेन्द्र प्रताप सिंह  
कुलपति



## बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश

आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2017-2019 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रो. नवीन खरे  
राज्य समन्वयक  
संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017-19

उपाध्यक्ष, ACCTI,  
समन्वयक, IGNOU  
रसायन विज्ञान विभाग  
लखनऊ विश्वविद्यालय

### शुभकामना संदेश



हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2017 का दायित्व लखनऊ विश्वविद्यालय को तीसरी बार सौंपा गया है। यह एक ओर, सरकार द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रति विश्वास को व्यक्त करता है, वहीं दूसरी ओर लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को भी स्पष्टः परिभाषित करता है। इससे विश्वविद्यालय परिवार प्रफुल्लित एवं उत्साहित हुआ है। किन्तु यह दायित्व सुखद होने के साथ-साथ चुनौती पूर्ण भी है।

वर्तमान तकनीकी परिदृश्य में अभ्यर्थियों के लिए परिस्थितियां जहाँ अनुकूल व सहज हुई हैं, वही अनेक कठिनाइयां भी उपस्थित हुई हैं। हम यथासंभव अभ्यर्थियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में निरन्तर प्रयासरत रहे हैं।

इस वर्ष हमने ऑनलाइन प्रक्रिया को और सहज बनाने का भरपूर प्रयत्न किया है। e-Challan, NEFT और Payment-gateway द्वारा शुल्क-संग्रहण को सरलतम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम दिनभर Helpline तथा e-mail के माध्यम से अभ्यर्थियों की समस्याओं के निदान का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

इस वर्ष हमने आधार कार्ड संख्या को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हेतु वांछनीय किया है। हम आशा करते हैं कि जिन अभ्यर्थियों का अब तक आधार कार्ड नहीं बना है, वह अपना आधार कार्ड शीघ्रातिशीघ्र बनवाकर उसका नम्बर आवेदन में यथास्थान भरें।

संभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया में कुछ कठिनाई हो, किन्तु वैश्विक विकास में तकनीकी के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रक्रिया उनके लिए अनुभव-प्रदाता सिद्ध होगी। हम दृढ संकल्प है कि अभ्यर्थियों को अधिकतम सुविधा प्रदान करते हुए, प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शिता, सुचिता, सहजता व गोपनीयता के साथ संपन्न हो। मैं समस्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य एवं सफलता की शुभ मंगल कामना करता हूँ।

प्रो. नवीन खरे  
राज्य समन्वयक